

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 फरवरी 2015—माघ 18, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल —462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2015

क्र. एफ-65-02-2015-तीन-नपा-283.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद शमशाबाद जिला विदिशा के माह जनवरी 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद शमशाबाद	अध्यक्ष	—	—	कृष्ण कुमार माहेश्वरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2	जिला विदिशा.	पार्षद	1	एक	प्रेमनारायण (पप्पू धाकड)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	प्रीति कलेक्टर सिंह यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती अजव बाई श्याम लाल अहिरवार.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	मनोज कुशवाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती बबीता ब्रजमोहन साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	सपना बृजेश मेहर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	मनीषा/कृष्णगोपाल	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	वीरेन्द्र सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	रजनी/राजेश आर्य	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	सुमित्रा वाई-कन्हैयालाल साहू	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12		पार्षद	11	ग्यारह	भावना मनमोहन साहू	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	कुलदीप	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	हेमन्त साहू	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	कमल कुमार प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रमेश आदीवासी	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2015

क्र. एफ-65-02-2015-तीन-नपा-284.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद छापीहेडा जिला राजगढ़ के माह जनवरी 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद छापीहेडा	अध्यक्ष	—	—	मानकुंवर विजय सिंह मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
2	जिला राजगढ़.	पार्षद	1	एक	भगवती बाई महेश कुशवाहा	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	राधेश्याम तवरं	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	प्रभूलाल	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	वेजन्तीबाई पति राजेन्द्र कुमार पाटीदार.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	कमला बाई-घनश्याम पाटीदार	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	अनीता w/o प्रकाशचन्द्र	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	सपनाबाई/वीरेन्द्र कुमार	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	ओम प्रकाश माली	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	सोना/मनोज कुमार	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	शकील खॉ जुम्मा खॉ	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	मुश्ताक खां	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	रामप्रसाद मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सुगनबाई	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	मानूबाई रामप्रसाद वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	चेन सिंह पटीदार	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.